

## प्रेस नोट दिनांक 10.11.2021

### थाना मंडी पुलिस द्वारा दो शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 650

#### ग्राम अवैध चरस बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद मे नशा तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे धर पकड अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवम् सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.11.21 को थाना मंडी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अंसारी चौक आजाद कालोनी गली न0 12 से दो शातिर नशा तस्कर क्रमशः 1-शुएब उर्फ इमानदार पुत्र शराफत निवासी गली न0 12 आजाद कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 2-बाबर पुत्र शराफत निवासी गली न0 12 आजाद कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर को आजाद कालोनी गली नं0 12 से 650 ग्राम अवैध चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 492/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व मु0अ0सं0 493/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्तो को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता:-

- 1-शुएब उर्फ इमानदार पुत्र शराफत निवासी गली न0 12 आजाद कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।
- 2-बाबर पुत्र शराफत निवासी गली न0 12 आजाद कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

- 1-650 ग्राम अवैध चरस

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-उ0नि0 कर्मवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 2-म0उ0नि0 श्वेता शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 3-है0का0 389 अल्लाराजी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 4-का0 385 सुशील कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
- 5-का0 808 नरेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक 10.11.2021

### थाना नागल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुमशुदा बालक को मात्र 02 घंटों में सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द, परिजनों ने पुलिस का किया धन्यवाद:-

आज दिनांक 10.11.21 को पप्पूराम पुत्र शम्भूराम निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा नागल पर प्रातः 09:30 बजे सूचना दी कि उसका पुत्र वासुदेव उम्र 13 वर्ष जो थाना नागल क्षेत्र के ग्राम जौला डिडौली में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विधालय /हास्टल में रहने वाला कक्षा-8 का छात्र है, जो स्कूल से बिना बताये कहीं चला गया है, जिसके सम्बन्ध में गुमशुदा वासुदेव के परिजनो को स्कूल के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई थी। थाना नागल पर गुमशुदा वासुदेव उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर थानाध्यक्ष नागल द्वारा त्वरित संज्ञान लेते लेते हुये थाना नागल से पुलिस टीम गठित कर गुमशुदा की तलाश करने हेतु रवाना किया गया तथा स्वयं भी गुमशुदा की तलाश में मगमूर हुये, जिसके परिणाम स्वरूप थाना नागल पुलिस को सफलता मिली तथा गुमशुदा वासुदेव को टपरी रेलवे स्टेशन से समय करीब 11:30 बजे बरामद कर लिया गया। गुमशुदा ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा स्कूल में मन नहीं लग रहा था। मैं अपने स्कूल के साथी सन्नी के साथ चला गया। मैं अपने मामा के घर जा रहा था इतने में आप लोग ( पुलिस) मुझे मिल गयी। दूसरे बच्चे सन्नी निवासी मुज्जफरनगर के बारे में उसके परिजनो से सम्पर्क किया गया तो सन्नी के परिजनो ने सन्नी को अपने घर सकुशल होने के बारे में बताया। थाना नागल पुलिस द्वारा वासुदेव उपरोक्त को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। थानाध्यक्ष नागल श्री बीनू चौधरी द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की जनता व बालक के परिजनों द्वारा भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी है।

### बरामद करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-श्री बीनू चौधरी थानाध्यक्ष नागल सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री योगेन्द्र अधाना थाना नागल सहारनपुर।
- 3-है0का0 376 सचिन चौहान थाना नागल सहारनपुर।
- 4-है0का0 12 जयबीर सिंह थाना नागल सहारनपुर।
- 5-का0 1253 अनिरूद्ध खोखर थाना नागल सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक 10.11.2021 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

( थाना गंगोह पुलिस द्वारा बलात्कार के मुकदमे में लम्बे समय से चल रहे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 328/2021 धारा 452/376डी/377/120बी/504/506 भा०द०वि० में लम्बे समय से चले वांछित **अभियुक्त मोनू उर्फ जुल्फकार पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम राकसेडा थाना सम्भालका जिला पानीपत राज्य हरियाणा** को दिनांक 9.11.21 समय 19.40 बजे अभियुक्त के घर ग्राम राकसेडा थाना सम्भालका जिला पानीपत राज्य हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मा० न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

**मोनू उर्फ जुल्फकार पुत्र आस मौहम्मद निवासी ग्राम राकसेडा थाना सम्भालका जिला पानीपत राज्य हरियाणा**

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ०नि० श्री कृष्ण कुमार , थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.उ०नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.का० 1350 मोहित राठी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 4.का० 1128 अजय राठी , थाना गंगोह जिला सहारनपुर

## प्रेस विज्ञापित दिनांक 10-11-2021

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा अवैध शराब का परिवहन करते समय 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—**  
दिनांक 09-11-2021 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा नकुड़ रोड़ हाईवे पुल के पास से अभि० दीपक पुत्र राकेश निवासी गदरहेड़ी थाना सरसावा, सहारनपुर को कार नं० यूके 07 एएक्स-2517 से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का का परिवहन करते समय गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु०अ०सं० 388/21 धारा 63/72 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

**थाना नानौता पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करते समय 02 अभियुक्त गिरफ्तार:—**  
दिनांक 09-11-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मधुसूदन फ़ैक्ट्री के पास से अभि० 1-अफजाल पुत्र गुलजार निवासी मौ० खंडा कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन, शामली 2-कुलदीप पुत्र ऋषिपाल निवासी मौ० हरिनगर जलालाबाद थाना थानाभवन, शामली को सट्टे की खाईबाड़ी करते समय सट्टे की पर्चिया व 470/-रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 303/21 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत किया गया।

**थाना को०देहात पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—**  
दिनांक 09-11-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा नयागांव से अभि० इम्तियाज पुत्र निन्ना निवासी नया गांव थाना को०देहात, सहारनपुर को 21 पब्ले देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 570/21 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

**थाना को०देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—**  
दिनांक 09-11-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा हकीमपुरा रोड़ पटाखा गोदाम के पास से अभि० शाहनवाज पुत्र शाहनजर निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना को०देहात, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 571/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**थाना को०देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—**  
दिनांक 09-11-2021 को थाना को०देहात पुलिस द्वारा बेहट रोड़ सलेमपुर भूकडी तिराहे से अभि० रहमान पुत्र अब्दुल रहमान निवासी दानिश कालोनी रसूलपुर थाना को०देहात, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को०देहात पर मु०अ०सं० 572/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:—**  
दिनांक 09-11-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा फिरोजाबाद अब्दुलापुर अहाडी चौराहे के पास से अभि० अब्दुल रहमान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम बल्ला माजरा थाना गंगोह, सहारनपुर को 24 पैकेट देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 399/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
सहारनपुर।